

अर्थशास्त्र



51-भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी?

उत्तर: - 1 जनवरी, 1951 को,

52-सामान्यतः बैंक जिस दर से कम पर उधार नहीं दे सकते हैं, उस दर को कहते हैं?

उत्तर: - आधार दर,

53-ग्रामीण टेक्नालॉजी संबंधी स्वायत्त संगठन का नाम है?

उत्तर: - CAPART,

54-जब किसी बैंक को, आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाता है, तब उसे कहते हैं?

उत्तर: - अनुसूचित बैंक,

55-बैंकों और वित्तीय संस्थानों में समान डाटा संचार के लिए RBI द्वारा शुरू किया गया नेटवर्क है?

उत्तर: - बैंकनेट,

56-भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ था?

उत्तर: - 2 चरणों में,

57-वह पहली समिति जिसने बैंकिंग प्रणाली के यंत्रीकरण से संबंधित सिफारिशें दीं?

उत्तर: - रंगराजन समिति,

58-बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें होता है?

उत्तर: - न तो निर्यात और न ही आयात होता है,

59-केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का मुख्य कार्य है?

उत्तर: - अनुमानित राष्ट्रीय आय प्रकाशित करना,

60-टोबिन टैक्स चार्ज किया जाने वाला कर है?

उत्तर: - विदेशी मुद्रा में लेनदेन,

61-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित किया गया था?

उत्तर: - वर्ष 1975,

62-स्वर्ण कोटा से आशय है?

उत्तर: - आईएमएफ द्वारा अपने सदस्यों को दी गई एक क्रेडिट प्रणाली,

63-नियर मनी का उदाहरण है?

उत्तर: - ट्रेजरी बिल,

64-चेक उदाहरण है?

उत्तर: - क्रेडिट मनी का,

65-भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जिस संगठन/एजेंसी का गठन किया गया है?

उत्तर: - नाबार्ड,

66-भारत में जिस एजेंसी/संगठन द्वारा औद्योगिक उत्पादन के डाटा का संकलन किया जाता है?

उत्तर: - केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय,

67-बैंकिंग शब्दावली में NEFT और RTGS से तात्पर्य है?

उत्तर: - एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण,

68-NEFT का पूरा नाम है

उत्तर: - National Electronic Funds Transfer

69-RTGS से तात्पर्य है

उत्तर: - Real Time Gross Settlement

70-बैंकिंग लोकपाल से आशय है?

उत्तर: - ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना,

71-संकट के समय में वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर बफर चलनिधि काम कर सकती हैं, वह हैं?

उत्तर: - SLR,

72-धनशोधन से तात्पर्य है?

उत्तर: - अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन,

73-गतावधि चेक होता है?

उत्तर: - चेक जिसके जारी होने की तारीख से छह महीने पूरे हो गए हों,

74-विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण है?

उत्तर: - टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण,

75-मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला उपाय है?

उत्तर: - रेपो/रिवर्स रेपो दर बढ़ाना,

76-बैंक द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के खाते में की गई जमा राशि को कहते हैं

उत्तर: - व्युत्पन्न जमा,

77-मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है?

उत्तर: - वाकर,

78-मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है?

उत्तर: - सैलिगमैन,

79-भारत में प्रथम पूर्णयता भारतीय मिश्रित बैंक कौन-सा था, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी?

उत्तर: - अवध वाणिज्यिक बैंक,

80-इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई?

उत्तर: - 1921,